



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-17052025-263186
CG-DL-E-17052025-263186

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 365]
No. 365]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 16, 2025/वैशाख 26, 1947
NEW DELHI, FRIDAY, MAY 16, 2025/VAISAKHA 26, 1947

भारतीय मानक ब्यूरो
(उपभोक्ता मामले विभाग)
अधिसूचना
नई दिल्ली, 2 मई, 2025

संदर्भ: HQ—PUB017/1/2020—PUB—BIS (1228).—भारतीय मानक ब्यूरो नियम, 2018 के नियम 15 के उपनियम (1) के अनुसरण में भारतीय मानक ब्यूरो एतद्वारा अधिसूचित करता है की जिन भारतीय मानकों का विवरण इसके साथ संलग्न अनुसूची में दिया गया है, उन्हें कॉलम तीन में इंगित तारीख को रद्द कर दिया या और वापिस ले लिया गया है।

अनुसूची

| क्रम सं. | वापिस लिए गए भारतीय मानकों की संख्या, वर्ष तथा शीर्षक | वापिस लिए जाने की तारीख |
|----------|--|-------------------------|
| (1) | (2) | (3) |
| 1 | आई एस 283 – 1976 टेलीग्राफ और टेलीफोन लाइनों के लिए चीनी मिट्टी के बर्तन इन्सुलेटर के लिए विशिष्टि (तीसरा पुनरीक्षण) | 30 अप्रैल 2025 |

| | | |
|---|---|----------------|
| 2 | आई एस 1441 : 1989 टेलीग्राफ तथा टेलीफोन लाइनों के लिये स्टाक अवलंब विधुत रोधक — विशिष्टि (दूसरा पुनरीक्षण) | 30 अप्रैल 2025 |
| 3 | आई एस 8935 – 1985 इलेक्ट्रिक सोलेनॉइड संचालित एक्ज्यूटर्स के लिए विशिष्टि (पहला पुनरीक्षण) | 30 अप्रैल 2025 |
| 4 | आई एस 9334 – 1986 इलेक्ट्रिक मोटर संचालित एक्ज्यूटर्स के लिए विशिष्टि (पहला पुनरीक्षण) | 30 अप्रैल 2025 |
| 5 | आई एस 9385 (भाग 5) : 1983 उच्च वोल्टेज फ़्यूज के लिए विशिष्टि भाग 5 करंट-लिमिटिंग फ़्यूज के लिए फ़्यूज-लिंक के प्रकार और आयाम | 30 अप्रैल 2025 |
| 6 | आई एस 14451 (भाग 1) : 1998 खपत और माँग का दूरमापन भाग 1 आवेग संचारण और अभिगृही युक्तियाँ | 30 अप्रैल 2025 |
| 7 | आई एस 14451 (भाग 2) : 1999 खपत और माँग का दूरमापन भाग 2 मीटर मानों का प्रत्यक्ष अंकीय अन्तरण | 30 अप्रैल 2025 |
| 8 | आई एस 16149 : 2014 आई ई सी 61345 : 1998 प्रकाशवोल्टीय (पी वी) माड्यूलों हेतु यू वी परीक्षण | 30 अप्रैल 2025 |

चित्रा गुप्ता, वैज्ञानिक जी एवं उप महानिदेशक (हॉलमार्किंग एवं ट्रेनिंग)

[विज्ञापन-III/4/असा./98/2025-26]

BUREAU OF INDIAN STANDARDS**(Department of Consumer Affairs)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 2nd May, 2025

Ref: HQ-PUB017/1/2020-PUB-BIS (1228).—In pursuance of Sub—rule (1) of Rule (15) of the Bureau of Indian Standards Rules, 2018, the Bureau of Indian Standards hereby notifies that the Indian standards, particulars of which are given in schedule hereto annexed have been cancelled and stands withdrawn from the date indicated against it in the third column.

SCHEDULE

| Sl. No. | No., Year & Title of the Indian Standard Withdrawn | Date of Withdrawal |
|---------|---|--------------------|
| (1) | (2) | (3) |
| 1 | IS 283 – 1976 Specification for Porcelain Insulators for Telegraph and Telephone Lines (Third Revision) | 30 April 2025 |
| 2 | IS 1441 : 1989 Insulator Stalks for Telegraph and Telephone Lines — Specification (Second Revision) | 30 April 2025 |
| 3 | IS 8935 – 1985 Specification for Electric Solenoid Operated Actuators (First Revision) | 30 April 2025 |
| 4 | IS 9334 – 1986 Specification for Electric Motor Operated Actuators (First Revision) | 30 April 2025 |
| 5 | IS 9385 (Part 5) – 1983 Specification for High Voltage Fuses Part 5 Types and Dimensions of Fuse-Links for Current-Limiting Fuses | 30 April 2025 |
| 6 | IS 14451 (Part 1) : 1998 Telemetry for Consumption and Demands Part 1 Impulse Transmitting and Receiving Devices | 30 April 2025 |
| 7 | IS 14451 (Part 2) : 1999 Telemetry for Consumption and Demands Part 2 Direct Digital Transfer of Meter Values | 30 April 2025 |
| 8 | IS 16149 : 2014 IEC 61345 : 1998 UV Test for Photovoltaic (PV) Modules | 30 April 2025 |

CHITRA GUPTA, Scientist G & DDG (Hallmarking and Training)

[ADVT.-III/4/Exty./98/2025-26]